

1128

Bachelor of Computer Applications
1st Semester
Paper: English (Compulsory)-A (Old)

Time allowed: 3 Hours

Max. Marks: 65

NOTE: Attempt all questions.

-.*-*-.*

SECTION-A

- I. Bring out in your words the significance of the story, 'The Tell-Tale Heart'.
Or
Draw a character sketch of Baron Hausberg on the basis of Oscar Wilde's story, 'The Model Millionaire'? (10)
- II. How was the assassination of President John F Kennedy received by the world?
Or
What did Jawaharlal Nehru, as a child, think about the behaviour of the English towards Indians? (10)
- III. (a) Give the summary of the poem:
Lord Ullin's Daughter
Or
On the Morning of Christ's Nativity (5)
- (b) Give short answers to any two of the following questions: -
(i) Give the central idea of the poem 'Sigh No More Ladies'.
(ii) What is the poet tired within the poem, 'When I Consider
Life'?
(iii) Why did the Chieftain of Uiva's isle offer the boatman a silver pound? (5)
- (c) Explain with reference to the context: -
My mother! when I leam'd that thou wast dead,
Say, wast thou conscious of the tears I shed?
Hover'd thy spirit o'er thy sorrowing son,
Wretch even then, life's journey just begun?
Perhaps thou gav'st me, though unseen, a kiss;
Perhaps a tear, if souls can weep in bliss-
Ah that maternal smile! It answer - Yes.
Or
She lived unknown, and few could know
When Lucy ceased to be;
She is in her grave, and, oh,
The difference to me! (5)

(2)

SECTION-B

IV. Change the form of any five of the following words as instructed and use the changed form in sentences on your own: -

Patient (noun), sufficient (verb), noise (adjective), digest (adjective), rich (verb), see (noun), luck(adverb), hesitate (adverb) (10)

V. Use any five of the following in sentences of your own: -

Distinct, maiden, sprightly, extravagance, a hearty meal, mortification, obligatory, fear-ridden (10)

VI. Translate the following passage into English:

आजकल नवयुवक बेचैन और दुःखी हैं। उनकी आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं और उनके रहने-सहने का स्तर ऊँचा हो गया है। वे अधिक वेतन वाली नौकरियाँ चाहते हैं। कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। कुछ को व्यापार आरम्भ करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। पुरानी रीतियों ने लोगों के इस बोझ को और भी बढ़ा दिया है। हमें मानसिक दुःख से रहित होने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। आत्म बलिदान का सिद्धान्त हमारा पथ-प्रदर्शन करने वाला आदर्श होना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਯੁਵਕ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ-ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡਾ ਪੱਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(For foreign students only)

Paraphrase the following passage:-

In the glow of the glorious weather,

In the sweet-scented, sensuous air,

My burdens seem light as a feather

They are nothing to bear.

(5)

VII. Write a letter to the Editor of a newspaper suggesting ways to ensure the safety of women in the city.

Or

Write a letter to your bank asking for overdraft facilities in your account.

(5)